



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 577]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 783(अ).— राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1985, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक (संख्यिकी) पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून में समूह 'क' राजपत्रित पदों (अनुसचिवीय) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,
अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, सहायक निदेशक (संख्यिकी) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** — भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **विथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	3* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु० 56100-177500)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा की है, 66.67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा की है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : (क) ऐसा विभागीय आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक जिसने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सांख्यिकी या आंकड़ा प्रसंस्करण में 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण लेने के पश्चात वेतन मैट्रिक्स (44900-142400रु०) के स्तर 7 में नियमित आधार पर उस पद पर उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की है) :-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों, स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी :-

(क). (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु0) स्तर-8 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी या समतुल्य में दो वर्ष की सेवा की हो, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु0) के स्तर-7 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी या समतुल्य में तीन वर्ष की सेवा की हो और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हो :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान के साथ भौतिकी/सांख्यिकी/गणित में मास्टर डिग्री।

(ii) सांख्यिकी आंकड़े के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और निर्वचन में तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) वन प्रबंधन समस्या के विशिष्ट संदर्भ के साथ सिस्टम डिजाइनिंग में अनुभव।

टिप्पण - 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण - प्रतिनियुक्त या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य 3. संयुक्त सचिव (वन स्थापना), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य 4. महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून — सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य 3. महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 9-3/2012.एफ.ई.]
एस. के. परिडा, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2018

G.S.R. 783(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of Forest Survey of India, Dehradun (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1985, insofar as they relate to the post of Assistant Director (Statistics), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' Gazetted posts (Non-Ministerial) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Forest Survey of India, Dehradun namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Forest Survey of India, Dehradun Assistant Director (Statistics) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .-** The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Statistics)	3* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in Pay Matrix. (Rs. 56100- 177500).	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	2 years for promotees.	33.33% by promotion failing which by deputation Including Short Term Contract, 66.67% by deputation Including Short Term Contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental Data Processing Assistant with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level 7 in Pay Matrix (Rs. 44900- 142400) after have undergone mandatory training of 2-4 weeks in Statistics or data processing from a recognised Institute. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of: - 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Director General of Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member 3. Joint Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member 4. Director General, Forest Survey of India, Dehradun - Member Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation, consisting of: - 1. Director General of Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Chairman; 2. Joint Secretary, Forest Establishment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member; 3. Director General, Forest Survey	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

<p>who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short-Term Contract):</p> <p>Officers from the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institutions</p> <p>(A)(i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level - 8 in Pay Matrix (Rs. 47600- 151100) or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level - 7 in Pay Matrix (Rs. 44900- 142400); or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(B) Possessing the educational and other qualification as follow: -</p> <p>Essential:</p> <p>(B) (i) Master's Degree in Physics/Statistics/Mathematics with Statistics or Operational Research of a recognised University</p> <p>(ii) Three years' experience in collection, compilation, analysis and interpretation of statistical data.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Experience in system designing with particular reference to forest management problems.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible</p>	<p>of India, Dehradun</p> <p>- Member.</p>	
--	--	--

for consideration for appointment by promotion.		
Note 2: Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinary not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation Including Short Term Contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 9-3/2012-FE]
S.K. PARIDA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 784(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1984, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ संख्यिकी सहायक पद से है; और भारतीय वन सर्वेक्षण (समूह 'क' और 'ख' पद) भारतीय नियम 1985, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ सांख्यिकी सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून में समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित पदों (अननुसचिवीय) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** — भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता** — वह व्यक्ति —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या,
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. विधिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग** से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक	2* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसूचितवर्ग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु044900—142400रु0)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसा आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक श्रेणी — 'क' जिसने वेतन मैट्रिक्स (35400—112400 रु.) में स्तर 6 के साथ उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और मूल कम्प्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में दो से चार हफ्तों का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून — अध्यक्ष संयुक्त निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून — सदस्य डी.आई.जी.एफ.(एस.यू.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य अवर सचिव, (वन स्थापना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'क'	*8 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35400 – 112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री कंप्यूटर पर गति परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किये जाने वाले आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए कम से कम 1500 कुंजी दाब प्रति घंटा का गति परीक्षण।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हता अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशाएं तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रश्न पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(10)	(11)	(12)
		(13)

<p>सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर – 5 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून — अध्यक्ष 2. अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून — सदस्य 3. संयुक्त निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून — सदस्य 4. उप निदेशक (कार्मिक और प्रशासन), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून — सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>
---	-----------------------	---	--

[फा. सं. 9-3/2012.एफ.ई.]

एस. के. परिडा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2018

G.S.R. 784(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Forest Survey of India (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the post of Junior Statistical Assistant, and in supersession of the Forest Survey of India (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Senior Statistical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Group 'B' Gazetted and Non-Gazetted posts (Non-Ministerial) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Forest Survey of India, Dehradun namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Forest Survey of India, Dehradun, Group 'B' Non-Gazetted Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .-** The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Data Processing Assistant.	2* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 7 in Pay Matrix. (Rs. 44900- 142400).	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Data Processing Assistant Grade 'A' in Level 6 in Pay Matrix (Rs. 35400- 112400) with 5 years regular service in the grade and have	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Director General, Forest	Not necessary.

<p>successfully completed 2-4 weeks mandatory training in basic computer programming and software.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>Survey of India, Dehradun - Chairman</p> <p>2. Joint Director, Forest Survey of India, Dehradun -Member</p> <p>3. D.I.G.F. (SU), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member</p> <p>4. Under Secretary (FE), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member</p>	
--	---	--

2. Data Processing Assistant Grade 'A'.	8* (2018) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in Pay Matrix (Rs. 35400- 112400).	Not applicable.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Note: 1 (Relaxation for Government servants up to 5 years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: 2 The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Bachelor Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute.</p> <p>A speed test of not less than 15000 Key Depressions per hour for data entry work to be assessed through speed test on computer.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidate otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is/are relaxable at discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at</p>	Not applicable.	2 years.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:</p> <p>-</p> <p>Deputation: Officers under the Central Government: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level - 5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre/Department;</p>

	any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			(B) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)
--	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director General, Forest Survey of India, Dehradun - Chairman; 2. Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun - Member; 3. Joint Director, Forest Survey of India, Dehradun - Member; 4. Deputy Director (P&A), Forest Survey of India, Dehradun - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 9-3/2012-FE]
S.K. PARIDA, Under Secy.